

कार्यालय

पुलिस

अधीक्षक

बांदा

- ❖ थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के महोखर में हुई महिला की हत्या के अभियुक्त को 02 घण्टे के अन्दर किया गया गिरफ्तार। एसओजी व थाना कोतवाली देहात पुलिस की सयुक्त टीम द्वारा की गिरफ्तारी।
- ❖ अभियुक्त ने आज दिनांक 15.07.2022 को सुबह 08 बजे महिला की जघन्य तरिकें से चाकू से गोंदकर और अवैध तमंचा से गोली मारकर की थी हत्या। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु कई टीमों का किया गया था गठन।
- ❖ पुलिस टीम द्वारा चारो तरफ से घिरता देख अभियुक्त ने तमंचे से पुलिस टीम पर किया फायर जवाबी कार्यवाही में आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा किया गया फायर, अभियुक्त के पैर में लगी गोली।
- ❖ प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने की थी प्रेमिका की हत्या, कुछ दिन पहले किसी और से शादी हो जाने से नाराज था प्रेमी।
- ❖ अभियुक्त के कब्जे से आला कत्ल अवैध तमंचा, कारतूस व चाकू बरामद।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अभिन्दन के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री लक्ष्मी निवास मिश्र क्षेत्राधिकारी नगर श्री राकेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी(प्रशिक्षणाधीन थाना प्रभारी कोत0देहात) श्रीमती अम्बुजा त्रिवेदी के निकट पर्येक्षण में आज दिनांक 15.07.2022 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम महोखर में हुई महिला की हत्या के वांछित अभियुक्त को एसओजी व थाना कोतवाली देहात पुलिस की सयुक्त टीम द्वारा 02 घण्टे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि आज दिनांक 15.07.2022 को समय सुबह करीब 08 बजे कोतवाली देहात के महोखर में शौच के लिये गयी 24 वर्षिय महिला की उसी गांव के एक युवक द्वारा जघन्य तरिकें से चाकू से गोदकर व गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करते हुये अभियुक्त की जल्द गिरफ्तारी हेतु एसओजी सहित पुलिस की कई टीमों गठित की गयी थी। पुलिस टीमों द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये अभियुक्त को थाना कोत0 नगर क्षेत्र के ग्राम मवई के समीप घेर लिया गया। अभियुक्त ने पुलिस द्वारा चारों ओर से घिरता देख बचने व भागने के फिराक में पुलिस टीम पर अवैध तमंचे से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा कुशलता पूर्वक आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गयी जिसमें अभियुक्त के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया तथा इलाज हेतु जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। अभियुक्त के कब्जे से आलाकत्ल अवैध तमंचा कारतूस व चाकू बरामद हुये हैं। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह मृतिका से प्रेम करता था और कुछ दिन पहले उसकी शादी हो जाने से नाराज था। काफी दिनों से वह इस फिराक में था कि जैसे ही मौका मिलेगा वह महिला की हत्या कर देगा। आज जब महिला शौच के लिये जा रही ही तब उसने मौका पाकर उसकी हत्या कर दी और वहाँ से फरार हो गया।

बरामदगी -

01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस व 02 अदद खोखा 315 बोर।

गिरफ्तार अभियुक्त-

प्रमोद पुत्र मूलचन्द्र निवासी महोखर थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्रभारी एसओजी निरीक्षक श्री राकेश कुमार तिवारी
2. उ०नि० सैफ अहमद थाना कोत० देहात
3. हे०का० महेश सिंह
4. का० अश्वनी प्रताप सिंह
5. का० भानू प्रकाश
6. का० चन्द्रशेखर
7. का० राहुल यादव